Dhanuka Agritech Limited



|2, July, 2022

Listing Department

National Stock Exchange of India Limited

Exchange Plaza,

Plot No. C/1, G. Block,

Bandra- Kurla Complex,

Bandra East, Mumbai-400 051

Symbol-DHANUKA

The Department of Corporate Services-

Listing

BSE Ltd.

Phiroze Jeejeebhoy Towers,

Dalal Street,

Mumbai- 400 001

Scrip Code: 507717

Subject: Newspaper publication- Disclosure under Regulation 30 of SEBI (LODR) Regulations, 2015

Dear Sir,

Pursuant to Regulation 30 and Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations and in compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, the Secretarial Standard on General Meetings issued by the Institute of Company Secretaries of India, We hereby enclosed copies of the following newspaper advertisements published for giving Notice of the 37th Annual General Meeting of the Company to be held on Tuesday, 2nd August, 2022 at 11.00 A.M (IST) through Video Conferencing / Other Audio Visual Means only, containing remote e-Voting details.

S.No	Name of Newspaper	Date of Publications	Edition(s)
1.	Financial Express(In English)	12.07.2022	All Editions
2.	Jansatta-(In Hindi)		All Editions

The above information is also available on the website of the Company at www.dhanuka.com.

Please take the above information in your record.

Thanking you, Yours Faithfully

For Dhanuka Agritech Limited

litin Sadana

Company Secretary and Compliance Officer

FCS-7612

Encl: a/a

Irdai panels to sort out issues between insurers & re-insurers

MITHUN DASGUPTA Kolkata, July 11

THE INSURANCE REGULA-**TORY** and Development Authority of India (IRDAI) has decided to form two task forces to suggest steps to sort out issues between insurers and reinsurers. These task forces will have to submit reports in three

The task force for the life

bi-monthly meetings with the

The task force for the life insurance sector has seven members and it will be headed by Naveen Tahilyani, MD & CEO, Tata

AIA Life Insurance

and reinsurers, and CEOs/MDs of non-life insurers and reinsurers on June 30 and July 1, respectively, in Hyderabad.

For the life insurance sector, the terms of reference for the task force are to study the issues on stabilization of reinsurance rates, capacity constraints per life with reinsurers, concerns with respect to delay in quotes by re-insurers, the applicability of compliance requirement with respect to claims, social & rural sector obligations, reinsurance support on social insurance schemes (Covid, PMJJBY etc), and faster settlement and payment digital mechanism (exchange) among reinsurers and cross border reinsurers, among others.

For the non-life insurance

sector, the terms of reference for the task force include the applicability of compliance requirement with respect to claims, social&ruralsectorobligations, TAT etc on reinsurers, cession cap on CBRs, concerns with respect to delay in quotes by reinsurers and reinsurance support on social insurance schemes (covid, PMSBY, pools etc.), among others. These were the issues raised by the stakeholders during 'Bima Manthan' on June 30 and July 1. Irdai, in its orders dated July 7, said the two task forces may invite specialists for discussion.

No takers for RCap bonds; deadline extended to July 22

RAJESH KURUP Mumbai, July 11

AMOVE BY Life Insurance Corporation of India (LIC) to sell secured bonds of Reliance Capital (RCap) worth ₹3,400 crore did not receive any bids from prospective buyers after the deadline expired on Monday. The insurer now has extended the deadline by another 11 days to July 22.

"Therewere no takers for the bonds as of the end of the day, following which a decision was taken to extend the deadline further. This also followed requests from certain quarters to extend the final date for submitting the bids," a source close to the development said.



TEPID RESPONSE

- LIC has been trying to sell the bonds, now trading at 70% discount, since July 2021
- RCap is currently undergoing insolvency proceedings, with the creditors seeking ₹23,666 crore in dues
- LIC expects to recover at least 30% of the bond amount

FE BUREAU

Mumbai, July 11

a 779% increase in

for the quarter ended

June 30 to ₹5,554

crore. On a sequential

basis, its lending oper-

ations grew 56%, the

company said in an

nearly 500% on year.

loan disbursements

ONE97 COMMUNICATIONS.

which owns and operates fin-

tech platform Paytm, has posted

exchange filing. Paytm has dis-

bursed 8.5 million loans during

the quarter, an improvement of

led company's credit portfolio

annualised run rate improved to

₹24,000 crore. "The rapid gro-

wth of our lending products

brings us an attractive profit

The Vijay Shekhar Sharma-

LIC has been trying to sell the bonds, now trading at 70% discount, since July 2021. The insurer had made two attempts earlier, which had failed as it could not arrive at a price con-

sensus with prospective buyers. RCap is currently undergoing insolvency proceedings, with the creditors of the former Anil Ambani group company seeking ₹23,666 crore in dues.

Paytm loan disbursals

jump 779% in June qtr

IDBI Capital Markets, the advisor to the bond sale, had earlier invited expressions of interest (EoIs) from prospective bidders. According to the EoI, bidders were to be finalised through an auction process.

LIC was expecting to recover at least 30% of the bond amount as it expects a number of prospective buyers to submit their bids before the expiry of the new deadline. The insurer had gross non-performing assets of about ₹35,130 crore as of March 31, 2021, according to its available annual report. Last year, certain bondholders – including Axis Bank and HDFC - had sold off their bonds to asset reconstruction company, Assets Care and Reconstruction Enterprise.

partnered several banks and

non-banks. ICICI Securities

expects that by FY26 around 19

million consumers and 1.2 mil-

lion merchants will avail financ-

ing products through the Paytm

platform.

chants eligible for loans from

ourplatform,"the company said,

as it offers merchant loans

loan is the mainstay vertical of

Paytm's lending operations,

contributing over 60% to its

loan business, followed by the

personal loan and merchant

loan segments. Last month, the

RBI directed non-bank prepaid

payment instrument (PPI)

BNPL sector.

'Buy Now Pay Later' (BNPL)

through payment devices.

Paytm has deplo-

yed 3.8 million devi-

ces at merchant sto-

res. "The strong

adoption of devices

also has a correlation

with the rise in mer-

Pranav Adani joins Saurashtra Trust, publisher of three leading Gujarati dailies

NAYAN DAVE Ahmedabad, July 11

PRANAVADANI, MD (agro, oil & gas) and director at Adani Enterprises, has been appointed a trustee of Saurashtra Trust. The trust manages three leading Gujarati dailies published from Mumbai and Gujarat.

The development comes after three months of the formation of AMG Media Net works, a wholly-owned subsidiary of Adani Enterprises.

"Janmabhoomi Group will benefit from Pranav Adani's international exposure and professionalism. His inclusion will give momentum to the ongoing illustrious journey of Janmabhoomi Group in the coming days," Damajibhai Anchorwala, Saurashtra Trust chairman, told FE. Though Pranav Adani did not comment on the development, a senior executive of the Adani Group said he has joined the Janmabhoomi Group as a trustee in his "personal capacity".

Saurashtra Trust, also known as Janmabhoomi Group, was established by freedom fighter Amrutlal Sheth in the year 1931.

SAT asks Sebi to conduct inquiry into Cairn dividend case

THE SECURITIES APPELLATE Tribunal (SAT) has set aside a Sebi order in a matter related to the non-payment of dividends by Cairn India to Cairn UK Holdings while directing the regulator to hold an inquiry and find a "logical conclusion" in the case within six months. Cairn India merged with Vedanta Ltd in

issuers not to load PPI instru-2017. The appellate tribunal's ments using credit lines, which order, dated July 5, came after an appeal was filed by Cairn UK is likely to adversely impact the against the Sebi order.—PTI

SPANNING OVER 2.2 million

massive food court with 25

is a project that boasts the presence of over 300 internagive the mall a distinctive shopping ambiance, according to a release. Catering to the diverse taste of consumers, the mall houses 15 fine dining restaurants and cafes, and a

integrated with mobile charg-

sqft, the Lulu Mall in Lucknow

ing facilities.

brand outlets. The food court is

Lulu-owned Funtura provides a 65,000 sqft entertain-

Uttar Pradesh. —FE BUREAU

Murugappa to launch e-three-wheelers by end of next month

emerging

electric

vehicle

diversi-

Muru-

fied ₹54,-

722-crore

gappa gr-

oup will

launch its

first prod-

uct, e-

three-wh-

eelers, in

the mar-

ket by Au-

(EV) seg-

ment, the

SAJAN C KUMAR Chennai, July 11

MAKING A FORAY into the

DCM SHRIRAM LTD. Regd. Office: 2nd Floor, Worldmark (West Wing), Aerocity, New Delhi-110037 Tel: 011-42100200

CIN No.: L74899DL1989PLC034923 E-mail: response@dcmshriram.com Website: www.dcmshriram.com

NOTICE

Pursuant to the Regulation 29 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, Notice is hereby given that a meeting of the Board of Directors of the Company will be held on Tuesday, 19th July, 2022, inter alia, to consider the Unaudited Financial Results (both Standalone and Consolidated) for the quarter ended 30.06.2022. This notice is also available on the website

of the Company, i.e., www.dcmshriram.com and stock exchanges i.e. www.nseindia.com and www.bseindia.com

For DCM Shriram Ltd

(Sameet Gambhir) Place: New Delhi Company Secretary Date: 11.07.2022 & Compliance Officer

ber of this year.Itwill be also

gust-end or early Septem-

an outlay of ₹200 crore investment for the EV play and its existing cycle plant at Ambattur in Chennai will make e-three-wheelers. The company will launch e-three-wheelers under the Montra brand in the passenger and cargo segments. The first product will be a passenger vehicle which will have three variants. Arun Murugappan, executive chairman of TII, told a select group of media people that the

gearing up for the launch of e-

tractors by year-end. Group sub-

sidiary Tube Investment of

India's (TII) newly carved-out

company, TI Clean Mobility, will

spearhead the EV business. It has

initial production capacity of ethree-wheelers would be around 75,000 per year and period."We have been working last three years and it's completely designed in-house,"he said.

DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Office: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram -122 002. Tel. No.: 0124-4345000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

Notice of the 37th Annual General Meeting, Remote E-Voting, Book Closure and Record Date for the purpose of Payment of Final Dividend for the F.Y 2021-22

Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Dhanuka Agritech Limited (the Company) scheduled to be held on Tuesday, 2nd August, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") to transact the businesses as set out in the Notice. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing No 2/2022. dated May 5th, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated May 5th, 2020, Circular No.02/2021 dated January 13th, 2021, Circular No.19/2021 dated December 8th, 2021 and Circular No. 21/2021 dated December 14th, 2021 allowing conducting of AGM through Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members for the meeting at a common venue. In terms of the said Circulars and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13th, 2022 and relevant circular of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM only. The Company has sent the Notice of the 37th AGM along with the Annual Report 2021-22, through electronic mode to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories.

MCA Circulars and the SEBI Circulars.

The Annual Report 2021-22 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 37th AGM is available on the website of the Company at www.dhanuka.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL) at www.nsdl.co.in.

and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ("SS-2") issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following:

End of Remote e-voting

Monday, 1st August, 2022 (IST 5.00 p.m.)

The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote electronically beyond the said date and time;

as on Friday, 22rd July, 2022 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during

Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact to Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542), as provided by CDSL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only;

through Depository i.e. CDSL and NSDL:

Individual Shareholders holding Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk securities in Demat mode with CDSL by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43. Individual Shareholders holding Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by securities in Demat mode with NSDL | sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 and 1800 22 44 30

Book Closure & Record Date

Login type

Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the Company has fixed Friday, July 22**, 2022 as the Record Date for determining entitlement of Members to Final Dividend for the Financial Year Ended March 31st, 2022. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd July, 2022 to Tuesday, 2rd August 2022 (both days inclusive) for the purpose of 37th Annual General Meeting of the Company.

For Dhanuka Agritech Limited Sd/-

Jitin Sadana FCS-7612

tional and national brands. All stores and retail outlets are strategically centered so as to

Lulu Mall in Lucknow to have

presence of over 300 brands

ment zone that will be unlike any other across the country. The cutting-edge VR-enabled arena will host a myriad assortment of video games, roller coasters and trampoline park. The hallmark of the mall will be the Lulu Hypermarket, which on completion will be the largest hypermarket in

INDIA POMER India Power Corporation Limited [Formerly - DPSC Limited] CIN: L40105WB1919PLC003263 Registered Office: Plot No. X1- 2&3, Block-EP, Sector-V

Salt Lake City, Kolkata -700 091 Tel.: + 91 33 6609 4300/08/09/10, Fax: + 91 33 2357 2452 E: corporate@indiapower.com W: www.indiapower.com

NOTICE TO SHAREHOLDERS Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund ("IEPF")

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 read with Rule 6 of the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, as amended from time to time ('the Rules').

The dividend declared during the financial year 2014-15, which remained

unpaid or unclaimed for a period of seven years is due for credit to the IEPF account on 15th October, 2022. The corresponding shares on which dividend was unpaid or unclaimed for seven consecutive years will also be transferred to the IEPF Authority as per the procedure set out in the Rules. The Compar will not transfer such shares to the IEPF where there is a specific order of Court/Tribunal restraining any transfer of such shares or where the shares are hypothecated/pledged under the Depositories Act, 1996. In compliance to the said Rules, the Company has send individual communication

to the concerned shareholders and the details of the shareholders, unencashed

dividend and the shares liable to be transferred to IEPF are also made available on the Company's website www.indiapower.com. Shareholders are requested to claim the dividend declared during the financial year 2014-15 and onwards before the same is transferred to the IEPF i.e. on or before 14th October, 2022. The concerned shareholders holding shares in physical form and whose shares are liable to be transferred to IEPF, may note that the Company would be issuing new share certificate(s) in, lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer of shares to IEPF and upon such issue, the Company shall inform the depository by way of corporate action to convert the new share certificate(s) into Demat form and transfer in favour of IEPF. The original share certificate(s) which are registered in the name of original shareholders will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The shareholders may further note that the details made available by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of new share certificate(s) by the Company for the purpose of transfer of shares

In case the Company does not receive any communication from the concerned shareholders on or before 10th October, 2022, the Company with a view to adhering with the requirements of the Rules, transfer the dividend to the IEPF by the due date i.e. 15th October, 2022. The corresponding shares on which dividend is unclaimed for seven consecutive years shall also be transferred by the due date i.e. 15th October, 2022 without any further notice.

Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF. Shareholders may claim the dividend and corresponding shares transferred to IEPF including all benefits accruing on such shares, if any, from the IEPF authorities after following the procedure prescribed in the Rules available at www.iepf.gov.in.

A copy of this notice shall be made available on the website of the Company and on the website of Stock Exchanges where the Equity Shares of the Company are listed i.e. www.nseindia.com and www.msei.in.

In case the shareholders have any queries on the subject matter and the Rules, they may contact the Company at corporate@indiapower.com or Registrar and Share Transfer Agent of the Company, M/s. C B Management Services (P) Ltd. at P-22, Bondel Road, Kolkata 700 019, Tel: 033-4011 6700/6724, Fax: 033-40116739, Email: rta@cbmsl.com.

Place : Kolkata

New Delhi

Date : 11.07.2022

For India Power Corporation Limited **Prashant Kapoor** Company Secretary ACS15576

financialen epan.in

Place: Kolkata

Date: 11 July, 2022

insurance sector has seven members and it will be headed by Naveen Tahilyani, MD & CEO, Tata AIA Life Insurance. The one for the non-life insurance sector has nine-members and will be headed by Bhargav Dasgupta, MD & CEO, ICICI Lombard General Insurance. Irdai said it held the second

CEOs and MDs of life insurers

A Kirloskar Group Company

Plot No. 3, Baner, Pune 411 045

CIN: L29113PN1920PLC000670

KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

Registered Office: Yamuna, S. No. 98 (3 to 7),



Enriching Lives

NOTICE TO THE SHAREHOLDERS OF 102ND ANNUAL GENERAL MEETING

- Shareholders may note that the 102nd Annual General Meeting (AGM) of the Company will be held over Video Conferencing (VC) and Other Audio Visual Means (OAVM) on Wednesday, August 10, 2022 at 11:00 AM IST in compliance with the General circular numbers 14/2020, 17/2020, 20/2020, 22/2020, 33/2020, 39/2020, 02/2021, 02/2022 and all other applicable laws and circulars issued by the Ministry of Corporate Affairs (MCA), Government of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI), to transact the business that is being set forth in the Notice of the
- In compliance with the above circulars, electronic copies of the Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22 shall be sent to all the shareholders whose e-mail IDs are registered with the Company / Depository Participants. The shareholders holding shares in physical mode are requested to furnish their Folio No., self-attested PAN card, their email IDs and mobile numbers by writing to Company's Registrar and Share Transfer Agent (R & T), i.e. Big Share Services Private Limited at Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Next to Ahura Centre, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai-400093, Maharashtra, India or by sending e-mail at KBL@bigshareonline.com.
- Shareholders holding shares in demat form can also send e-mail to aforesaid e-mail ID to register their e-mail address for the limited purpose of receiving the Notice of 102nd AGM and Annual Report for the Financial Year 2021-22. The Company will provide facility to shareholders to exercise their rights
- to vote by electronic means. The instructions for joining the 102nd AGM through VC / OAVM and the process of e-voting (including the manner in which shareholders holding shares in physical form or who have not registered their e-mail address can cast their vote through e-voting), will form part of the Notice of 102nd AGM. The Notice of the AGM and Annual Report for the Financial Year ended on

website at www.kirloskarpumps.com; stock exchange website at www.bseindia.com and www.nseindia.com and on the NSDL's website at http://www.evoting.nsdl.com.

March 31, 2022 will also be made available on the Company's

Place : Pune **Devang Trivedi** Date: July 11, 2022 **Company Secretary**

◆ Tel: +91 20 6721 4444 • Email: secretarial@kbl.co.in • Website: www.kirloskarpumps.com



ELECTROSTEEL CASTINGS LIMITED

By the Order of the Board of Directors

For KIRLOSKAR BROTHERS LIMITED

CIN: L27310OR1955PLC000310

Registered Office: Rathod Colony, Rajgangpur, Sundergarh, Odisha 770 017, India Corporate Office: G. K. Tower, 19 Camac Street, Kolkata 700 017, India

Tel. No.: +91 06624 220 332; Fax: +91 06624 220 332 Website: www.electrosteel.com; E-mail ID: companysecretary@electrosteel.com

NOTICE

(for attention of Equity Shareholders of the Company)

Sub.: Transfer of Equity Shares of the Company to the DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority

This Notice is published pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013 ('Act') read together with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 and amendments thereof ('Rules').

Section 124(6) of the Act provides that all shares in respect of which dividend has not been paid or

claimed for seven consecutive years or more shall be transferred by the Company in the name of Investor

Education and Protection Fund. Adhering to the various requirements set out in the Rules, the Company has communicated to the concerned shareholders, at their latest available addresses, who have not claimed their dividend(s) for

the Financial Year 2014-15 and onwards, for taking appropriate action(s).

liable to be transferred to the DEMAT Account of the Authority.

The Company has uploaded details of such shareholders along with their folio number or DP ID/Client ID and number of Equity Shares due for transfer to DEMAT Account of the Investor Education and Protection Fund Authority ('Authority') on its website, www.electrosteel.com. The shareholders are requested to refer to the website to verify the details of dividends not encashed and the Equity Shares

The concerned shareholders, holding Equity Shares in physical form and whose Equity Shares are liable to be transferred to DEMAT Account of the Authority, may note that the Company would issue new share certificate(s) in lieu of the original share certificate(s) held by them for the purpose of transfer to the DEMAT Account of the Authority as per the Rules and upon such issue, the original share certificate(s) will stand automatically cancelled and be deemed non-negotiable. The concerned shareholders, holding Equity Shares in dematerialised form and whose Equity Shares are liable to be transferred to DEMAT Account of the Authority, may note that the Company would inform the depository by way of Corporate Action for transfer of shares in favour of DEMAT Account of the Authority. The shareholders may further note that the details uploaded by the Company on its website should be regarded and shall be deemed adequate notice in respect of issue of the new share certificate(s) by the Company for the purpose of

transfer of Equity Shares to DEMAT Account of the Authority. The Shareholders may note that both the unclaimed dividend and the shares transferred to the IEPF Authority/DEMAT Account of the Authority including all benefits accruing on such shares, if any, can be claimed back by them from IEPF Authority after following the procedure prescribed in the Rules.

In case the Company does not receive any valid claim from the concerned shareholder by 16 October, 2022, the Company shall with a view to comply with the aforesaid requirements set out in the Rules, transfer the shares to the DEMAT Account of the Authority.

In case the shareholders have any queries/clarifications on the subject matter and the Rules, they may contact the Company at its Registered Office or Maheshwari Datamatics Pvt. Ltd., the Company's Registrar and Transfer Agent, at 23, R. N. Mukherjee Road, 5th Floor, Kolkata 700 001, Tel. No.: +91 33 2248 2248/2243 5029; E-mail ID; mdpldc@yahoo.com.

> For Electrosteel Castings Limited Sd/-

> > Indranil Mitra Company Secretary ICSI: A20387







Dated: 11.07.2022

Helpdesk details

pool. We are also seeing increases in average ticket size due could be scaled up after a certain to the scale-up of the personal loans business in particular," the on the e-three-wheelers for the

company said. Paytm, which acts as an aggregator for digital loans, has

Corporate Identification Number: L24219DL1985PLC020126

Registered Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi -110005. | Tel. No.: 011-23534551 - 57

Annual General Meeting

The requirement of sending physical copies of the Notice alongwith Annual Report of the AGM has been dispensed with vide

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management

a. The remote e-Voting facility would be available during the following period: Commencement of remote e-Voting Saturday, 30th July, 2022 (IST 9.00 a.m.)

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the Paid-Up Equity Share Capital of the Company

c. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the

 Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again. Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login

Place: Gurugram Company Secretary and Compliance Officer

जनपश्च शाखा, 66 जनपश्च, नई दिल्ली- 110001 टेलीफोन- 011-28844060, 23353268 ई-मेल- Janpath.Newdelhi@bankofindia.co.in

कब्जा सूचना (अचल सम्पत्ति हेत्)

जबकि. अधोहरलाक्षरकर्ता बैंक ऑफ इण्डिया के प्राधिकत अधिकारी होते हए वित्तीय आस्तियों क प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गवन और प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 13(12) और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के संपठित नियम 3 के तहत प्रदत्त शवितयों के अनुप्रयोग में एक मांग सूचना दिनांक 11.04.2022 को जारी की जिसमें ऋणी (1.) मैसर्स खुशाल एंटरप्राइजेज प्रोपराईटर श्री खुशाल गोयल (प्रधान देनदार), (2) श्री प्रदीप कुमार गोयल (गारंटर), (3) श्रीमती अंजू रानी (गारंटर) र उक्त सुचना-पत्र की प्राप्ति दिनांक से 60 दिनों के भीतर सुचना-पत्र में उल्लेखित 🗞 1,05,55,762.00 (रूपये एक करोड़ पाँच लाख पचपन हजार सात सी बासठ मात्र) दिनांक 11.04.2022 तक + आगे क ब्याज, खर्चे एवं अन्य शुरुक इत्यादि को लौटाने के लिये निर्गमित किया।

ऋणी द्वारा राशि लीटाने में विकल होने पर, ऋणी तथा सामान्य जन को एतद द्वारा सूचना दी जाती है वि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने उक्त अधिनियम की उपधारा (4) की धारा 13 के सपठित प्रतिभृति हित प्रवर्तन नियग 2002 के नियम 8 के तहत उसको प्रदत्त शक्तियों के अनुप्रयोग में, अधोहस्ताक्षरी ने दिनांक 06 जुलाई 2022 को निम्नलिखित सम्पत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है।

ऋणी को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतया एतदहारा संपत्ति के साथ व्यवहार नहीं करने की चेतावनी दी जाती है और संपति के साथ किया कोई व्यवहार बैंक ऑफ इंडिया, जनपथ शाखा के **रूपये** 1.05.15.410.30 (रूपये एक करोड़ पाँच लाख पन्द्रह हजार चार सौ दस एवं तीस पैसे मात्र) -दिनांक 06.07.2022 तक आगे का ब्याज एवं अन्य शुल्को के प्रभार के अध्यधीन होगा।

ऋणियों का ध्यान प्रतिभृत आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप धारा (८) के उपबंधों की ओर, आकष्ट किया जाता है।

अचल सम्पत्ति का विवरण

सम्पत्ति के सभी अंश व अंग गठित होते है जिसमें आवासीय सम्पत्ति - मकान नं. 232 (नया नं. 589/16) क्षेत्रफल 95 वर्गगज (19 फीट 9 इंच X 44 फीट) कवर्ड एरिया 1638 वर्गफीट जो बरफ खाना के नाम से ज्ञात आवासीय कॉलोनी, गडगांव, तहसील व जिला गडगांव (हरियाणा) में स्थित, सीमाएं- उत्तर- अन्य भवन दक्षिण- प्रमंडी लाल जैन की सम्पत्ति, पूर्व- श्री देव करण शर्मा का मकान, पश्चिम- श्री गिरजा शंकर भारद्वाज का मकान एवं सस्ता। दिनांक: 06.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी, वेंक ऑफ इंडिया



कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड पंजीकृत कार्यालयः 27 बीकेसी, सी-27, जी-ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (ई), मुंबई-400051 शाखा कार्यालयः 7वां तल, प्लॉट नंबर 7, सेक्टर–125, नोएडा, उत्तर प्रदेश–201313

प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहा नीचे विवरणितानुसार उधारकर्ताओं को मांग सूचनाएं निर्गत की थीं, जिनमें संबंधित उधारकर्ताओं को उक्त सूचनाओं रं अंकित राशि का भुगतान की वास्तविक तिथि तक समस्त लागतों, शुल्कों और व्ययों के साथ सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभृगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता(गण) ∕ सह–उधारकर्ता(गण) राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ताओं / सह—उधारकर्ताओं को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, उक्त नियमावली के नियम १ र्के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत उसके साथ अंकित तिथियों को. आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदृद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्तियों का लेन–देन न करें तथा सम्पत्तियों का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन जो होगा, वह वहां उसमें यानी सूचना में विनिर्दिष्ट एक राशि और इस पर संबंधित तिथियों र भावी ब्याज, लागतों, शुल्कों हेत् कोटक महिंद्रा बैंक लि. के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभूत परिसंपत्तियों को छुड़वाने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (8) के प्रावधानी

. आधिपत्य की तिथि आधिपत्य का प्रकार पते / ऋण खाता संख्या / ऋण राशि के विवरण 3. मांग सूचना तिथि 4 बकाया राशि रु. में गोयल, दोनों निवासी: जींद रोड जखोली रोड, तहसील एवं जनपद-कैथल, परिसीमित हैं. उत्तर— अन्य की संपत्ति, पर्व-अन्य की संपत्ति, 4) रु. 25,85,905.00/— (रुपए पच्चीर लाख पिचासी हजार नौ सौ पांच मात्रो संस्वीकृत ऋण राशिः रु. 23,83,730 /-दिनांक 30.11.2021 के अनुसार और **बंधककर्ता का नामः** श्री पवन (रुपए तेईस लाख तिरासी हजार सात सौ पूर्णरूपेण भुगतान होने तक 01.12.2021 र तीस मात्र) लागू ब्याज के साथ देय एवं भुगतानयोग्र

किसी भी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुद्रियाल (+91 9910563402), श्री सुमित सिन्हा (९१ ९८१,०६१,६४५) और श्री प्रशांत गौतम (+९१ ९६४३६१,५४३६) से संपर्क करें। स्थानः कैथल. दिनांकः 12.07.2022

बकाया

राशि

₹ 5.43.994/-

28-02-2022

15.01.332/

28-02-2022

28,25,687/-

28-02-2022

वर्णित अचल संपत्तियों / सरक्षित आस्तियों का कब्जा ले लिया है।

पंजीकृत कार्यालय : रेमन हाउस, एच टी पारेख मार्ग, 169, बेकबे, रिक्लेमेशन, चर्चगेट, मुम्बई 400 020. **CIN L70100MH1977PLC019916**,

शाखा : पहली मंजिल, पदम टॉवर - 2, 14/113, सिविल लाइन्स, कानपुर - 208001

कब्जा सूचना

आधिपत्य

दिनांक

07-07-2022

(सांकेतिक

कब्जा)

07-07-2022

(सांकेतिक

07-07-2022

(सांकेतिक

कब्जा)

तथापि. उपरोक्त दर्शित ऋणियों /सह-ऋणियों / वैघ वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधि देय राशि के भगतान करने में असफल रहे हैं. उपरोक्त ऋणीयों

/सह-ऋणियों / वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सुचित किया जाता है कि सपठित नियम 8 सहित

कथित अधिनियम की धारा 13(4) द्वारा प्रदत्त अधिकारों के अंतर्गत एच.डी.एफ.सी. लिमिटेड के प्राधिकृत अधिकारीयों ने उपरोक्त दिनांक को यहाँ

ऋणियों /सह-ऋणियों / वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों को विशेषतः एवं सर्वसाधारण को सामान्यतः सावधान किया जाता है कि उपरोक्त

मांग नोटिस

की दिनांक

21-03-2022

25-03-2022

21-03-2022

HDFC BANK We understand your world गुजेन्द्र स्पेस प्लॉट ५.६. सेक्टर-१६वी, आवास विकास, शिकन्दरा योजना, आगग-282007

कब्जा सूचना परिशिष्ट IV[नियम 8(1)]

जैसा कि. वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत एचडीएफसी बैक लि. के प्राधिकत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभति हिन (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 3 के साथ पटित धारा 13 (12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 14 जन., 2022 जारी कर ऋणधारकों 1) मैं. गुप्ता बुक हिपो, द्वारा उसके प्रॉपाईटर श्रीमती सरोजिनी गुप्ता (ऋणधारक), 2. मैं. जय मा ट्रेडर्स एंड सप्लायसं, हारा उसके प्रॉपाईटर श्री अवधेश कुमार गुप्ता (ऋणधारक), 3. श्रीमती संरोजिनी गुप्ता, पत्नी श्री अवधेश कुमार गुप्ता (गारंटर), 4. श्री अवधेश कुमार गुप्ता, पुत्र श्री राज कुमार गुप्ता (मार्टगेजर एवं गारंटर) को उक्त सुचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर राचना में वर्णित राज़ि रु. 80,73,098/- (रुपये अस्सी लाख तिहत्तर हजार अन्टानवे मात्र) वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणधारक इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अतः एतदहारा ऋणधारक तथा आम जनता को सचित किया जाता है कि आज, 8 जुलाई, 2022 को अधोहस्ताशरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 एवं 9 के साध पठित अधिनियम की धारा 13 की उप-धारा (4) के अंतर्गत उन्हें प्रयत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहरसाक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतरहारा सतके किया जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय रू. 80,73,098/- (रुपये अस्सी लाख तिहत्तर हजार अन्द्रानचे मात्र) के साथ प्रदस गांशि, यदि कोई हो, को घटाकर खर्चे एवं चार्नेज आदि के साथ उस पर आगे

के व्याज के लिये एचडीएफसी बैंक लि. के चार्ज के अधीन होगा। ऋगधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पर्धियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा

13 की उप-धारा (8) के प्रावधानों के प्रति आकृष्ट की जाती है। अचल सम्पत्ति का विवरण

गिरबी सम्पत्तिः सम्पत्ति सं. 668/3, मोह. खरगजीत नगर, सिटी, तह. एवं जिला मैनपुरी, पिन कोड-205001 में स्थित 1212/334/3 पर निर्मित एक प्लॉट, अब मकान (668/3 का भाग), चीहरी: पूर्वः गली रोड 10 फीट चौड़ा जिसके बाद श्रीमती प्रभावती पुण्डीर की सम्पत्ति, पश्चिमः बाउण्डी मूल चंद वाबु, उत्तरः अनोखे लाल की सम्पत्ति, दक्षिणः श्रीमती प्रभावती पुण्डीर की सम्पत्ति।

fieffe: 8.7.2022 प्राधिकतः अधिकारी एसडीएकसी बैंक लि. संशान: आगरा

Hero

हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय: द ग्रेंड प्लाजा, प्लॉट नंबर 2, नेल्सन मंडेला रोड, वसंत कुंज - फेज- ॥, नई दिल्ली - 110070 CIN: L35911DL1984PLC017354 फोन: 011-46044220 | फैक्स: 011-46044399 ई-मेल: secretarialho@heromotocorp.com वेबसाइट: www.heromotocorp.com

इप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने के लिए सार्वजनिक सूचना

आम जनता के सदस्यों और हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड (कंपनी) के मौजुदा शेयरधारकों को एतद्वार सचित किया जाता है कि मल शेयर प्रमाणपत्र (जिसका विवरण नीचे दिया गया है) चोरी हो गए हैं नहीं मिले हैं / गुम हो गए हैं, ऐसी सुचना संबंधित शेयरधारकों से इस संबंध में प्राप्त हुई हैं। कंपनी उनके पक्ष में मूल शेयर प्रमाणपत्रों (अंकित मूल्य रू. 2/-) के एक्ज में डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने का इरादा रखती है

फोलियो नं.	शेयरधारकों का नाम	अंकित मूल्य	डिसटिन्कटिव नं.	प्रमाणपत्र संख्या	शेयरो की संख्या
HML0104842	इंदर लाल उप्पल	₹. 2/-	166096461-166096770	525943	310
HML0100958	विद्या रानी कोहली रोशन लाल कोहली	₹. 2/-	158749461-158751140	515660	1680
HML0010589	चंद्रकांत कक्कड़	ਲ. 10/-	530066-530115	10611	50
HML0090421	शोभा नायक	₹. 2/-	47959306-47959425	540631	120
HML0072730	मोरेश्वर ततिवार प्रफुल ततिवार प्रवीण ततिवार	₹. 10/-	3655216-3655265 16220986-16220995 16220996-16220997 20908934-20908983 20908984-20908995	73114 236115 236116 341894 341895	50 10 02 50 12

किसी भी व्यक्ति को अगर कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने से आपत्ति है तो इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 7 दिनों के भीतर लिखित में कंपनी के 'सचिवीय डिपॉटमेंट' को प्रस्तुत करते हुए कंपनी के पंजीकृत कार्यालय पर या ई-मेल secretarialho@heromotocorp.com पर भेजें। इस बीच, जनता के सदस्यों को ऊपर उल्लेखित शेयर प्रमाणपत्रों में निवेश करने के खिलाफ आगाह किया जाता है। कते हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड

स्थान : नई दिल्ली धीरज कपुर दिनांक : 11.07.2022 कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

> PUBLIC NUTICE 263 for 1500 Equity Shares of Rs. 1/- (Rupees One only) Each bearing Distinctive Nos. 156543275 To 156544774, Folio No. 00019899 of Kajaria Ceramics Ltd Registered in the name

undersigned has/have applied to the company to issue duplicate certificate(s). Any person who has/have any claim in respect of the said shares certificates(s) should lodge such claim with the company at its registered office SF-11, Second Floor, JMD Regent Plaza,, Mehrauli Gurgaon Road, Gurgaon Haryana 122001 within 15 days of the publication of this notice, after which no claim will be entertained and the company will proceed to issue duplicate share certificate(s) Date: 12/07/2022 Name(s) of the Claimant(s) फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड **पंजीकृत कार्यालयः** 5वां तल, दानी कॉर्पोरेट पार्क, 158, सी.एसं.टी. रोड, कलीना, सांताक्रूज (पू.), मुंबई–400098

ने वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली २००२ के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(२) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां इसमें निम्न वर्णितानसार उधारकर्ताओं. सह—उधारकर्ताओं. गारंटरों को मांग सचनाएं निर्गत की थीं. जिनमें यानी कि सचनाओं में संबंधित उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों को उक्त सूचनाओं में वर्णित राषि का उक्त सूचनाओं की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभुगतान करने को कहा गया था। उक्त उधारकर्ता, सह—उधारकर्ता, गारंटर निर्धारित बकाया राषि का प्रतिभुगतान करने में विफल रहे हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों तथा जनसाधारण को एतदुद्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी ने यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का भौतिक आधिपत्य, उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, यहां इसमें निम्नांकित तिथियों पर, ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों को विषेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा समान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न करें तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन जो होगा वह वहां उसमें विनिर्दिष्ट राशि तथा संबंधित तिथियों से इस राशि पर भावी ब्याज, लागतों और शल्कों के हेत **मै. फीनिक्स एआरसी प्रा. लि. (**फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19—10 के एक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत्) के प्रभाराधीन होगा। उधारकर्ताओं, सह—उधारकर्ताओं, गारंटरों, बंधक संपत्तियों, ट्रस्ट का नाम, बकाया देयराशियां, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेषित मांग सूचना और अभ्यर्थित राशियों के विवरण निम्नानुसार हैं:

आधिपत्य

सूचना

एवं शुल्कों के साथ दिनांक

27.04.2022 से लागू भावी

ब्याज के साथ 26.04.2022

के अनुसार देय एवं भुग्तेय है

प्रतिभूतियों के विवरण रांपत्ति अपार्टमेंट रांख्या एफ–164 के रामस्त वह तथा पते, ऋण खाता सं., भाग तथा अंश, जो बहु मंजिला भवन संख्या 121 **2. मांग सूचना तिथि** ऋण राष्ट्रि में पार्किंग स्पेस नं. एयू—345 के साथ, डीएलएफ 3. बकाया राशि रु. में गी धर्म पाल सिंह पत्र श्री परशा सिलवर ओक अपार्टमेंट्स के रूप में अभिज्ञात, (उधारकर्ता एवं स्वर्गीय जानकदी देवी के ग्रप हाउसिंग के लिए चिन्हित भूमि मापन 14.75 2) 28.04.2022 विधिक उत्तराधिकारी) तथा श्रीमती दया एकड में स्थित एक भुखंड पर निर्मित, फेज– कोर पत्नी श्री धर्म पाल सिंह, दोनों 3) 支. 30.84.708.83 / डीएलएफ सिटी के रूप में अभिज्ञात आवासीय (रुपए तीस लाख चौरासी निवासी : सी-8/2, डीएलएफ फेज-।, कॉलोनी में ग्राम चक्करपुर एवं सिकंदरपुर घोसी ब्लॉक–बी, सी, डी, सुखचैन मार्ग, हजार सात सौ आठ एवं तहसील एवं जनपद गुड़गांव (हरियाणा) में स्थित गुडगांव, हरियाणा—122001, दोनों यहां हैं जिनका आवृत्त क्षेत्रफल 98.554 वर्ग मीटर है के निवासी भी हैं: फ्लैट संख्या एफ—164, जो अपार्टमेंट नं. 164 में हैं, और इस प्रकार टॉवर नं. 121, 16वां तल, डीएलएफ परिसीमित हैं: उत्तर में अथवा इस दिशा की भगतान होने तक लागतों

सिटी, सिलवर ओक अपार्टमेंट्स, ओर— खला स्थल. दक्षिण में अथवा इस दिशा गडगांव. हरियाणा–122001 की ओर— 121 / 165, पूर्व में अथवा इस दिशा ऋण खाता संख्या: पीआर००128755 की ओर— बॉलकनी, पश्चिम में अथवा इस दिशा संस्वीकृत कुल ऋण राशिः की ओर- गलियारा 55,00,000 / — (रुपए पचपन लाख मात्र) बंधककर्ता का नामः स्वर्गीय जानकी देवी

और श्री विवेक कनौजिया (मोबाइल नं. +91 9205177091) से संपर्क करें। प्राधिकृत अधिकारी : कृते फीनिक्स एआरसी प्राइवेट लिमिटेड दिनांक : 12.07.2022 (फीनिक्स ट्रस्ट एफवाई 19-10 के एक ट्रस्टी के रूप में कार्यरत)

किसी पूछताछ के लिए कृपया श्री सोमेश सुंद्रियाल (मोबाइल नं.: +91 9910563402)

प्रपत्र ए

सार्वजनिक उद्घोषणा [भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (कॉर्पोरेट व्यक्तियों के लिए दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया)

> विनियमन, 2016 के विनियमन 6 के अंतर्गत] यूनाकास्ट आटाटक प्राइवट लिमिटड के क्रडाटर के ध्यानाथ

सबाधत ।ववरण				
1.	कॉर्पोरेट ऋणधारक का नाम	यूनीकास्ट ऑटोटेक प्राईवेट लिमिटेड		
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	23 अगस्त, 2012		
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	आरओसी-दिल्ली		
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/कॉर्पोरेट ऋणधारक का लिमिटेड लाएबिलिटी पहचान संख्या	U34102DL2012PTC240620		
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	27-बी/7, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-110005		
6.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	8 जुलाई, 2022 (आदेश तिथि 8.7.2022 की प्रति आईआरपी क 10.7.2022 को प्राप्त हुई।)		
7.	दिवाला प्रस्ताव प्रक्रिया के समापन की अनुमानित तिथि	4 जनवरी, 2023 (आदेश प्राप्ति की तिथि अर्थात् ४ जुलाई, 2022 से 180 दिन)		
8.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का नाम, पंजीकरण संख्या, जो अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के रूप में कार्यरत है	श्री कान्ति मोहन रुस्तगी पंजी. सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240		
9.	बोर्ड में यथा पंजीकृत अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल का पता एवं ईमेलः	श्री कान्ति मोहन रुस्तगी पताः ई-7, कैलाश कॉलोनी, नई दिल्ली-110048 ई-मेलः kanti.rustagi@patanjaliassociates.com		
10.	अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल के साथ पत्राचार के लिये प्रयुक्त होने वाला पता तथा ईमेल	कान्ति मोहन रुस्तगी; यूनीकास्ट ऑटोटेक प्राईवेट लिमिटेड के मामले में परिसमापक रीसर्जेन्ट रिऑल्यूशन प्रॉफेश्नल्स एलएलपी, पताः 905, 9वां तल, टावर सी, यूनीटेक बिजनेस जोन, निर्वाणा कन्ट्री, सेक्टर-50, गुड़गाँव-122018, ई-मेलः cirp.unicastautotech@gmail.com		
П.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	22 जुलाई, 2022 (अंतरिम प्रस्ताव कर्मी की नियुक्ति अर्थात् जुलाई, 2022 से 14 दिन)		
2.	क्रेडीटर का वर्ग यदि कोई हो, धारा 21 की उप धारा (6ए) के उपबंध (बी) के अंतर्गत, अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेश्नल द्वारा सुनिश्चित किया गया			
13.	किसी वर्ग में क्रेडीटर्स के प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिये पहचान किये गये इन्सॉल्वेन्सी प्रॉफेश्नल का नाम (प्रत्येक वर्ग से तीन नाम)	लागू नहीं		
14.	(क) संबंधित प्रपत्र तथा (ख) प्राधिकत प्रतिनिधियों का विवरण उपलब्ध है	https://www.ibbi.gov.in/home/downloads		

पाईवेट लिमिटेड के संदर्भ में कॉर्पोरेट इन्सॉल्वेन्सी प्रस्ताव प्रक्रिया शुरू करने का आदेश दिया है। एतदुद्वारा यूनीकास्ट ऑटोटेक प्राईवेट लिमिटेड के क्रेडीटरों को निर्देश दिया जाता है कि प्रविष्टि सं. 10 में वर्णित पते पर अंतरिम प्रस्ताव प्रॉफेशनल के पास लिफाफे के शीर्ष/विषय वस्तु में ''दावे'' का उल्लेख करते हुए या उससे पूर्व अपने प्रमाण के साथ दावे जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धित से ही प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत. डाक द्वारा अथवा इलेक्टॉनिक माध्यमों से प्रमाण के साथ अपने दावे जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत अथवा भामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। तिथि: 12.7.2022 श्री कान्ति मोइन रुस्तर्ग

पंजीकरण सं.: IBBI/IPA-002/IP-N00097/2017-18/10240

न्यायालय अपर जिला मजिस्ट्रेट(टी0जी0)/अपर कलेक्टर, लखनस संख्या-316/रोडर-टो०जी०/2022 दिनाक ०६ जुलाई, 2022

 मेसर्स बी डी एस इण्टरप्राइजेंज सी/ओ 02 गुरू भारती पुरम गाजीपुर, इन्दिरा नगर लखनऊ व प्रो0 श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री सुभाष चन्द्र सिंह पता 02 गुरू भारती पुरम, नियर आरएलबी स्कूल, 8 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

2. श्री अभिषेक सिंह पुत्र श्री सुमाष चन्द्र सिंह पता 02 गुरू भारती पुरम, नियर आरएलबी स्कूल, 8 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

एतदद्वारा आपको नोटिस दी जाती है कि एक्सिस बैंक लिए, लखनऊ के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में याचिका प्रस्तुत करते हुए यह अवगत कराया गया है कि आपके द्वारा उक्त बैंक से लिए गए ऋण का भूगतान अभी तक अदा नहीं किया

अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करें कि क्यों न वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण और पूनर्गठन और प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम-2002 की धारा 14 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए बैंक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख में कथित सम्पत्ति को कब्जे में लेकर बैंक को ऋण अदायगी वसूली के संबंध में दे दी जाय। यदि आप उक्त निर्धारित दिनांक व समय पर अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में उपस्थित नहीं होते हैं तो समझा जायेगा कि आपको कुछ नहीं कहना है और तदनुसार नियमानुसार आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

> अपर जिला मजिस्ट्रेट (टी०जी०) / अपर कलेक्टर लखनक ।

भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड CONTAINER CORPORATION OF INDIA LTD. एक नवरल कम्पनी (मारत सरकार का उपक्रम) A Navratna Company (A Govt, of India Undertaking) ि कॉनकॉर concor निविदा सूचना (केवल ई-टेंडर-सह-रिवर्स ऑक्शन पद्धति)

कॉनकॉर द्वारा "आईसीडी/पीएसडब्ल्यूसी, दप्पर, पंजाब में कॉर्गों की हैडलिंग के लिए व्यावसायिक सेवाए प्रदान करने" हेतु दो निविदा प्रणाली में केवल ई-निविदा—सह-रिवर्स ऑक्शन पद्धति के माध्यम् से ऑनलाइन निविदा आमंत्रित की जाती हैं। निविदा दस्तावेज रै1000 / – " मुगतान करने के बाद कवल वेबसाइट (www.tenderwizard.com/CCIL) से ऑनलाइन डाउनलोड किए जा सकते हैं। निविदा सं CON/Area-I/TC/Cargo Handling/PSWC/2022 कार्य का नाम आईसीडी / पीएसडब्ल्य्सी, दप्पर, पंजाब में कोंगों की हैडलिंग के लिए व्यावसायिक सेवाएं प्रदान करना ₹ 2,02,61,996 / -- (जीएसटी सहित) 4 वर्षों के लिए हनुबंध की अवधि चार (4) वर्ष

वरोहर जमा राशि ₹ 1,01,310 / - र ई-भुगतान के माध्यम से ₹ 1,000 / — र सभी कर एवं प्रभारों सहित ई—भूगतान के माध्यम से रस्तावेज की कीमत ₹ 4,720 / — सभी कर एवं प्रभारों (अ--प्रतिवेय) संहित ई--भूगतान के माध्यम से नेविदा प्रक्रिया शत्क बिक्री की तिथि एवं समय (ऑनलाइन) | 12.07.2022 को 15.00 बजे से 25.07.2022 को 16.00 बजे तक निविदा जमा करने की अंतिम 26.07.2022 को 15.00 बजे तक तिथि एवं समय नेविदा खुलने की तिथि एवं समय 27.07.2022 को 15.30 बजे

योग्यता मापदेशों एवं अन्य विवरणों के लिए कृपया www.concorindia.com या eprocure.gov.in य www.tenderwizard.com/CCIL पर लॉग ऑन करें। निविदादाताओं से अनुदेश है कि वेबसाइट नियमित रूप से देखते रहें। कॉनकोर विना कोई कारण बताए किसी या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार रखता है। वरि. महाप्रबंधक / सीएवओ / एरिया-1



ख़ारटी हाउसिंग फाइनेस (इंडिया) लिमिटेड (पूर्व में एआरटी एफोर्डेबल हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड के रूप में अभिज्ञात) पंजी. कार्यालयः 107, प्रथम तल, बेस्ट स्काई टॉवर, नेताजी सुभाष प्लेस, पीतमपुरा, नई दिल्ली—110034 शाखा कार्यालयः ४९, उद्योग विहार फेज ४, गुरुग्राम, हरियाणा १२२०१५

> आधिपत्य सूचना (अचल संपत्ति हेत्)

प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनिय 2002 के अंतर्गत और प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगान्तर्गत, **ऋण खाता सं. एलएनकेएनएल06918 — 190006182** हेत् एक मांग सुचना दिनांकित 02.05.202 निर्गत की थी, जिसमें उधारकर्ता(ओं) कुलवंत सिंह एवं बलजीत कौर को सूचना में अंकित, 02.05.2022 के अनुसार रु. 11,12,100 /— (रुपए ग्यारह लाख बारह हजार एक सौ मात्र) की एक राशि और इस राशि पर ब्याज का, उक्त सूचन की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर प्रतिभगतान करने को कहा गया था। उधारकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतदद्वारा उधारकर्ता(ऑ) तथा जनसाधार को सुचित किया जाता है कि अधोइस्ताक्षरकर्ता ने, यहां इसमें निम्न विवरणित सम्पत्ति का, प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावर्ल

अधोहस्ताक्षरकर्ता ने एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड (सीआईएन नं. य65999डीएल2013पीएलसी 255432) व

प्रयोगान्तर्गत. 11.07.2022 को. आधिपत्य ग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतदद्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि सम्पत्ति का लेन–देन न व तथा सम्पत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन—देन जो होगा, वह 02.05.2022 के अनुसार, रु. 11,12,100 / — (रुपए ग्यारह लाख बारह हजार एक सौ मात्र) की एक राशि तथा इस राशि पर ब्याज हेतु **एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड** के प्रभाराधीन होगा

उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण प्रतिभत परिसम्पत्ति के मोचनार्थ उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की धारा 13 की उप–धा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है। अचल संपत्ति का विवरण

संपत्ति, जो भखंड सं. वाका रकबा वीर सिंह कॉलोनी में विद्यमान, खेवट संख्या 1246 में समाविष्ट कित्ते 11 जो 3/1250 के रूप में जमाबंदी के अनुसार वास्ते वर्ष 2017–18, जो हस्तांतरण विलेख दिनांक 14.08.2018 वसिका संख्या 669 पूर्व- गली, पश्चिम- राम सिंह का भूखंड, उत्तर- चरणजीत कौर का मकान, दक्षिण– टेक चंद का मकान के अनुसार, मापन 17.5 x 46.6 अथवा कहें 90 वर्ग गज जो तहसील निसिंग एवं जनपद करनाल हरियाणा—132024 में स्थित है, जो इस प्रकार परिसीमित है पश्चिम: नामाधिकार विलेखों के अनुसार पूर्व: नामाधिकार विलेखों के अनुसार उत्तर: नामाधिकार विलेखों के अनुसार दक्षिण: नामाधिकार विलेखों के अनसार

दिनांक : 11.07.2022

प्राधिकृत अधिकारी एआरटी हाउसिंग फाइनेंस (इंडिया) लिमिटेड

बिक्री के अंतर्गत U74900TG2008PTC060157

ई-नीलामी बिक्री नोटिस

नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्युनल, हैदराबाद बेंच की ओर से नियुक्त लिक्विडेटर द्वारा ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के लिए प्रस्तुत किया जा रहा है।

ब्लॉक 1: पुल्लनायकनपट्टी, जिला रामनाथपुरम, तमिलनाड में जमीन का हिस्सा

ई-नीलामी 26 जुलाई 2022 को दोपहर 3 बजे से शाम 4 बजे तक वेब पोर्टल www.eauctions.co.in पर होगी।

lq.lspl@gmail.com पर ईमेल करें। विस्तृत सेल नोटिस वेबसाइट www.eauctions.co.in पर अपलोड किया गया है

> हजेफा फाखरी सिताबखान, लिक्विडेटर IBBI/IPA-001/IP-P00031/2017-18/10115

दिनांकः 12 जलाई 2022 स्थानः मुंबई

संपत्तियों की बिक्री

लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड - बिक्री के अंतर्गत की संपत्तियों को माननीय ई-नीलामी 2 ब्लॉक्स के लिए आयोजित की जा रही है, जिनकी जानकारी नीचे दी

ब्लॉक 2: पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी में निवेश

अधिक जानकारी के लिए +91 88285 76197 पर कॉल करें या

लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड - बिक्री अंतर्गत के लिए huzefa.sitabkhan@gmail.com, lq.lspl@gmail.com

हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉपॉरेशन लिमिटेड चितिकोक्षकेक SyndicateBank

दिनांक 17.08.2022 को सम्पत्तियों की ई-नीलामी ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि 16.08.2022

नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम, सैक्टर-5, तमिल संगम बिल्डिंग, दिल्ली-110022, ईमेल: rondelrec@canarabank.com

वास्ते / - प्राधिकृत अधिकारी

ई-नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 6(2) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत चल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी बिक्री सूचना एतदहारा जनसाधारण को एवं विशेष रूप से कर्जदारों एवं गारंटरों को सुचित किया जाता है, कि नीचे वर्णित चल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक / प्रभारित है, का कब्जा, केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी हारा लिया गया है सम्बद्ध पक्षकारों से बैंक के बकायों की वसुली के लिए उसकी बिकी **"जहाँ है, और जो कुछ भी है"** के आधार पर 17.08.2022 को अपींह 12.30 बजे से अपींह 01.30 बजे तक (बिक्री के निष्कर्ष तक प्रत्येक 5 मिनट की अवधि के असीमित विस्तार

चल संपत्तियां का पूर्ण विवरण, आरक्षित मृल्य, ईएमडी, देयताएं तथा ज्ञात ऋणभार, यदि कोई हो, निम्नलिखित है:

क. सं.	शाखा का नाम	कर्जदार/गारंटर्स/ बंधककर्ता का नाम एवं पता	चल संपत्तियां का विवरण	क∘ज का स्थिति	कुल बकाया राशि	ख. धरोहर राशि (रु.) ग. बोली वृद्धि (रु.) घ. बिक्री सूथना की तिथि	और IFSC कोड
1	नारायणा विहार शाखा, नई दिल्ली—110028 फोन न. 7985107789, 9582291211, 9312804994	शंकर पुत्र ओम प्रकाश , डब्ल्यू102 / 279, इंद्रा मार्केट नरायणा, दिल्ली—110085	MARUTIWAGON R GREEN LXI कलर : SUPERIOR WHITE पंजी. नं.: DL1RTB8645 चेसिस नं. : MA3EWDE1S00B74369 इंजन नं. 7864393 (व्यवसायिक वाहन)	- SHEVENE	4 6 4 4 6	a. 82,500/- b. 8,250/- c. 1,000/- d. 11-07-2022	खाता नं. 209272434 IFSC कोड: CNRB0002846
2	कनोंट सर्कस, एच —54, न्यू दिल्ली— 110001 फोन 9818962009, 9991895554, 9312804994	विनीत उप्पल पुत्र सतीश उप्पल, डी—116, डीडीए पलेट्स, न्यू रंजीत नगर, दिल्ली—110008	HYUNDAIXCENT पंजी. नं.: DL1RT8145 बेसिस नं. : MALA741CLFM140080 इंजन नं. G4LAFM758140 (व्यवसायिक वाहन)	भौतिक	रु. 2,07,763.70 दिनांक 31.07.2019 तक और दिनांक 01.08.2019 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	a. 35,000/- b. 3,500/- c. 1,000/- d. 11-07-2022	खाता नं. 209272434, IFSC कोड: CNRB0002009
3	नारायणा विहार शाखा, नई दिल्ली—110028 फोन न. 7985107789, 9582291211, 9312804994	जगमोहन पुत्र सुखराम, मकान नं. 1651, ब्लॉक ई, नेताजी नगर, दिल्ली—110023	MARUTI SUZUKI WAGON R GREEN LXI पंजी. नं.: DL1RTB9492 इंजन नं. 7878327 चेसिस नं. MA3EWDE1S00B84029 (व्यवसायिक बाहन)	भौतिक	रु. 3,64,622.63 दिनांक 31.08.2021 तक और दिनांक 01.09.2021 से भविष्य का ब्याज और अन्य प्रभार इत्यादि सहित	a. 1,06,000/- b. 10,600/- c. 1,500/- d. 11-07-2022	खाता नं. 209272434, IFSC कोड: CNRB0002846

बकाया देयताएँ : स्थानीय सरकार (सम्पत्ति कर, जल कर, बिजली के बिल आदि) रु: उपर्युक्त – बैंक के रिकॉर्ड के अनुसार शुन्य

धरोहर राशि 16.08.2022 को सायं 05.00 बजे तक या उससे पहले जमा की जानी चाहिए। वाहन का निरीक्षण 12.08.2022 को पूर्वीह 10.00 बजे से सायं 5.00 बजे के बीच किया जा सकता है। बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया केनरा बँक की वेबसाइट www.canarabank.com में दिए गए लिंक "ई—नीलामी" को देखें। या कार्यदिवस में कार्यकाल के दौरान निम्नलिखित से सम्पर्क करे: क्र.सं. १ हेतु : सुश्री निखत खान, मोबाइल नं. 7985107789, वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, नारायणा विहार शाखा, नई दिल्ली, ई-मेल cb2846@canarabank.com या श्री एल बी निर्मल, मोबाइल नं. 9312804994, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम सेक्टर-5, या श्री रोहित नैयर, मोबाइल नं. 9582291211, प्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम सेक्टर-5

संक्टर-5, या श्री रोहित नैयर, मोबाइल नं. 9582291211, प्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम संक्टर-5 क.सं. 3 : सुश्री निखत खान, मोबाइल नं. 7985107789, वरिष्ठ प्रबंधक, केनरा बैंक, नारायणा विहार शाखा, नई दिल्ली, ई-मेल cb2846@canarabank.com या श्री एल बी निर्मल, मोबाइल नं. 9312804994, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम सेक्टर-5, या श्री रोहित नैयर, मोबाइल नं. 9582291211, प्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम सेक्टर-5

नोट: बोलीदाता को शीर्षक, रिथति, आरटीओ बकाया, चालान आदि के संबंध में वाहन का उचित परिश्रम और भौतिक सत्यापन करना होगा। बोली जमा करने के बाद बैंक द्वारा किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा।

उपर्युक्त ई-नीलामी हेतु सेवा प्रदाताः मैसर्स कैनबैंक कंप्युटर सर्विसेज लिमिटेड, वेबसाइट - www.ccsl.co.in एवं https://indianbankseauction.com संपर्क व्यक्ति श्री प्रताप कांजीलाल / श्री डी.डी. पाखरे -9832952602/8898418010 ਗੈਂਡ ਗਾइन 080-23469665 ईਸੇਗ : ccsleauction@gmail.com

प्राधिकत अधिकारी, केनरा बैंक

DHANUKA AGRITECH LIMITED

Corporate Identification Number: L24219DL1985PLC020126

Registered Office: 82, Abhinash Mansion, 1st Floor, Joshi Road, Karol Bagh, New Delhi -110005. | Tel. No.: 011-23534551 - 57 Corporate Office: Global Gateway Towers, MG Road, Near Guru Dronacharya Metro Station, Gurugram -122 002. Tel. No.: 0124-4345000 | Email: investors@dhanuka.com | Website: www.dhanuka.com

Notice of the 37th Annual General Meeting, Remote E-Voting, Book Closure and Record Date for the purpose of Payment of Final Dividend for the F.Y 2021-22

Annual General Meeting Notice is hereby given that the 37th Annual General Meeting (AGM) of Dhanuka Agritech Limited (the Company) scheduled to

set out in the Notice. In accordance with the General Circular issued by the Ministry of Corporate Affairs bearing No 2/2022 dated May 5th, 2022 read with Circular No. 20/2020 dated May 5th, 2020, Circular No.02/2021 dated January 13th, 2021, Circular No.19/2021 dated December 8th, 2021 and Circular No. 21/2021 dated December 14th, 2021 allowing conducting of AGM through Video Conferencing ("VC") or other Audio Visual Means ("OAVM") without the physical presence of the Members for the meeting at a common venue. In terms of the said Circulars and in compliance with the provisions of the Companies Act, 2013 and SEBI circular SEBI/HO/CFD/CMD2/CIR/P/2022/62 dated May 13th, 2022 and relevant circular of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the AGM of the Company is being held through VC/OAVM. Hence, Members can attend and participate in the AGM through VC / OAVM only. The Company has sent the Notice of the 37th AGM along with the Annual Report 2021-22, through electronic mode to all those Members whose e-mail addresses are registered with the Company or Registrar & Transfer Agent and Depositories.

The requirement of sending physical copies of the Notice alongwith Annual Report of the AGM has been dispensed with vide

The Annual Report 2021-22 of the Company, inter alia, containing the Notice and the Explanatory Statement of the 37th AGM is available on the website of the Company at www.dhanuka.com and on the websites of the Stock Exchanges viz. www.bseindia.com and www.nseindia.com. A copy of the same is also available on the website of Central Depository Services (India) Limited (CDSL) at www.cdslindia.com and National Securities Depository Limited (NSDL) at www.nsdl.co.in.

Remote E-voting

In compliance with Section 108 of the Companies Act, 2013 ('the Act') read with Rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014, as amended from time to time, the Secretarial Standard on General Meetings ('SS-2') issued by the Institute of Company Secretaries of India and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Company is providing to its Members the facility of remote e-Voting before as well as during the AGM in respect of the business to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed CDSL for facilitating voting through electronic means.

The detailed instructions for remote e-Voting are given in the Notice of the AGM. Members are requested to note the following: a. The remote e-Voting facility would be available during the following period:

Commencement of remote e-Voting Saturday, 30th July, 2022 (IST 9.00 a.m.) Monday, 1st August, 2022 (IST 5.00 p.m.) End of Remote e-voting The remote e-Voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter and Members will not be allowed to vote

electronically beyond the said date and time;

as on Friday, 22nd July, 2022 ('Cut-Off Date'). The facility of remote e-Voting system shall also be made available during the Meeting and the Members attending the Meeting, who have not already cast their vote by remote e-Voting shall be able to exercise their right during the Meeting. A person whose name is recorded in the Register of Members / Register of Beneficial Owners as on the Cut-Off Date only shall be entitled to avail the facility of remote e-Voting before / during

request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or may contact to Mr. Nitin Kunder (022-23058738) or Mr. Mehboob Lakhani (022-23058543) or Mr. Rakesh Dalvi (022-23058542), as provided by CDSL. A person who is not a Member as on the Cut-Off Date should treat the Notice of the AGM for information purposes only:

Members who have cast their vote by remote e-Voting prior to the Meeting may also attend the Meeting electronically, but shall not be entitled to vote again.

Helpdesk for Individual Shareholders holding securities in demat mode for any technical issues related to login

Login type	Helpdesk details			
securities in Demat mode with CDSL	Members facing any technical issue in login can contact CDSL helpdesk by sending a request at helpdesk.evoting@cdslindia.com or contact at 022-23058738 and 022-23058542-43.			

and 1800 22 44 30 Pursuant to the Regulation 42 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), Regulations 2015, the

Members facing any technical issue in login can contact NSDL helpdesk by

For Dhanuka Agritech Limited Jitin Sadana

Place: Gurugram

क. आरक्षित मूल्य (रु.)

Dated: 11.07.2022

3. श्री सुभाष चन्द्र सिंह पुत्र श्री देश राज सिंह पता 02 गुरू भारती पुरम, नियर आरएलबी स्कूल, 8 इन्दिरा नगर, लखनऊ।

गया है। अतः आप दिनांक 22.07.2022 को समय 12.00 बजे दिन में

(हिमांशु कुमार गुप्ता)

एनएसआईसी न्यू एमडीबीची बिल्डिन, दुसरी मंजिल, ओखला जीवोचिक एस्टेट, नई दिल्ली-110020



2002 के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13 की उप—धारा (4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों

be held on Tuesday, 2nd August, 2022 at 11:00 A.M. (IST) through Video Conferencing ("VC") to transact the businesses as

MCA Circulars and the SEBI Circulars.

b. The voting rights of the Members shall be in proportion to their share of the Paid-Up Equity Share Capital of the Company

c. Any person who acquires shares of the Company and becomes a Member of the Company after the dispatch of the Notice and holds shares as on the Cut-Off Date, may obtain the login-id and password for remote e-Voting by sending a

through Depository i.e. CDSL and NSDL:

securities in Demat mode with NSDL | sending a request at evoting@nsdl.co.in or call at toll free no.: 1800 1020 990 **Book Closure & Record Date**

Individual Shareholders holding

Company has fixed Friday, July 22nd, 2022 as the Record Date for determining entitlement of Members to Final Dividend for the Financial Year Ended March 31st, 2022. Further, the Register of Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Saturday, 23rd July, 2022 to Tuesday, 2rd August 2022 (both days inclusive) for the purpose of 37th Annual General Meeting of the Company.

> Company Secretary and Compliance Officer FCS-7612

की ओर आमंत्रित किया जाता है। उधारकर्ताओं, अनुसूचित संपत्ति, बकाया देयराशि, धारा 13(2) के अंतर्गत प्रेशित मांग

सचनाएं और उसके अंतर्गत अभ्यर्थित राशियां, आधिपत्य की तिथि के विवरण यहां इसमें नीचे दिए गए हैं: उधारकर्ता, सह–उधारकर्ता के नाम तथा श्री पवन कुमार एवं श्री विकास कुमार अडड्। 179 / 15 शोरा कोठी. ऋण खाता संख्याः पी593पीबीएल2684910

🖫 🗐 🚅 हाउसिंग डेवलपमेंट फायवेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभृतिहित प्रवर्तन अधिनियम 2002 तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 3 के संपठित धारा 13(12) में प्रदत्त शक्तियों के अंतर्गत हाउसिंग डेयलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्राधिकत अधिकारी/यों द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के तहत मांग सचना पत्र जारी कर निम्नलिखित ऋणियों /सह-ऋणियों /वैध वारिसों /वैध प्रतिनिधियों को उनके नाम के सम्मुख दर्शाई गई राशियों के भुगतान तथा / या वसूली की दिनांक तक आकरिमक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित कथित सूचनाओं की दिनांक से 60 दिन के अंदर सचनाओं में अंकित लाग दरों पर ब्याजे सहित अदा करने करने हेत निर्देशित किया था। ऋणीयों / सह-ऋणियों वैध वारिसों तथा वैध प्रतिनिधियों के नाम

श्रीश्यामु गुप्ता एवं

श्रीमती शशि गुप्ता

2. श्रीरविन्द्रकुमार श्रीमती रिचा शुक्ला एवं

श्री वेदांत शुक्ला [कानुनी वारिस/कानुनी प्रतिनिधि (श्रीमती रीचा शक्ला के माध्यम से नाबालिक प्रतिनिधित्व) भुगतान तथा / या वसूली की दिनांक तक के लागू ब्याज, आकिस्मक व्यय, लागत, शुल्क आदि सहित।

अंकित अचल संपत्तियों एवं सुरक्षित आस्तियों के संबंध में कोई संव्यवहार ने करें एवं सदर अचल सम्पत्तियों एवं सुरक्षित आस्तियों हाउसिंग डेयलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड के आधिपत्य में है। ऋणियों /सह-ऋणियों /वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों का ध्यान प्रतिभृति आस्तियों के मोचन के लिए उपलब्ध समय के संदर्भ में अधिनियम की घारा 13 की उपधारा (8) के उपबंधों की ओर आकृष्ट किया जाता है। पंचनामा की प्रतियां और विस्तृत सूची अधोहस्ताक्षरी के साथ उपलब्ध हैं, और यह कि ऋणियों /सह-ऋणियों/वैध वारिसों तथा उनके वैध प्रतिनिधियों को सामान्य कार्यालय के दौरान किसी भी कार्य दिवस पर अधोहस्ताक्षरित से संबंधित प्रतिलिपि एकत्र करने के लिए अनुरोध किया जाता है।

दिनांक: 12,07,2022

स्थान : कानपुर /उन्नाव

क्र.सं. 2 हेतु : श्रीमती दीपिका, मो. नं. 9818962009, मुख्य प्रबंधक, केनरा बैंक, कर्नोट सर्कस, एच-54 शाखा, दिल्ली या श्री एल बी निर्मल, मोबाइल नं. 9312804994, सहायक महाप्रबंधक, केनरा बैंक, नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय, आर के पुरम

www.readwhere.com

जपर्यक्त शाखा प्रमारियों से किसी भी कार्यदिवस में कार्य घंटो के दौरान सम्पर्क किया जा सकता है।

दिनांक 11-07-2022, स्थान : नई दिल्ली

अचल संपत्ति (यों)/

सरक्षित आस्ति (यों) का विवरण

खसरा नं 89 मीन के प्लॉट पर निर्मित मकान, ग्राम माझरा, पिपाङखेरा,

गली यैहातीमाली, परगना हाधा, उन्नाव स्थित संपत्ति के समस्त भाग

एवं अंश, क्षेत्रफल : 125.46 वर्गमीटर, **चर्तुसीमा :** पूर्व : प्लॉट नं. 159,

युनिट-1/167-ईडब्लूएस स्वर्ण जयंती विहार, परगना

वजीला,कानपुर स्थित संपत्ति के समस्त भाग एवं अंश, क्षेत्रफल

58.19 वर्गमीटर, **चर्त्सीमा** : पूर्व : प्लॉट नं.1/166, पश्चिम

फ्लेट नं 102, फ्लोर-1, रुद्राक्ष ऑर्चिंड के नाम से ज्ञात,

फ़ीहोल्ड प्लॉट नं,एन-58 एवं एन-59 ब्लॉक-बी पर निर्मित.

स्कीम नं, 40 पंकी कानपुर, कवर्डक्षेत्रफल : 81, 75 वर्गमीटर, भूमि

के अविभाजित हिस्से के साथ 35.91 वर्गमीटर, चर्त्सीमा : पूर्व

खुला आसमान, पश्चिम : फ्लेट नं. 107, उत्तर : पैसेज एवं फ्लेट

रोड, उत्तर:प्लॉटनं, 1 / 168, दक्षिण:रोड

नं. 101, दक्षिण: सिढियाँ

पश्चिम: 30 फीटरोड, उत्तर: प्लॉटनं: 145, दक्षिण: प्लॉटनं: 143

of VIJAY LAXMI KAUL has/have been lost and the

VIJAY LAXMI KAÙĹ लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड -